



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 66]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 31, 2017/माघ 11, 1938

No. 66]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 31, 2017/MAGHA 11, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2017

सा.का.नि. 74.(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्व विभाग, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड, ज्येष्ठ अनुवादक और कनिष्ठ अनुवादक (समूह-ख, अराजपत्रित, अनुसचिवीय पद), भर्ती नियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का नाम राजस्व विभाग, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड, ज्येष्ठ अनुवादक और कनिष्ठ अनुवादक (समूह-ख, अराजपत्रित, अनुसचिवीय पद), भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राजस्व विभाग, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड, ज्येष्ठ अनुवादक और कनिष्ठ अनुवादक (समूह-ख, अराजपत्रित, अनुसचिवीय पद), भर्ती नियम, 2015 (जिसे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।”

3. उक्त नियमों की अनुसूची में,-

(क) स्तम्भ (4) के स्तम्भ शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर” ;

(ख) ज्येष्ठ अनुवादक के पद से संबंधित क्रम संख्या (1) में, -

- (i) स्तम्भ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44,900-1,42,400 रु.)”;
- (ii) स्तम्भ (11) में, -
- (क) “प्रोन्नति” शीर्ष के अधीन “वेतन बैंड-2, 9,300-34,800” से शुरू होने वाले और “प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा किया हो” पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् – “ऐसे कनिष्ठ अनुवादक जिनहोने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35,400-1,12,400 रु.) के साथ उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है और राष्ट्रीय उत्पाद-शुल्क, सीमा-शुल्क और स्वापक अकादमी में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा किया हो।”;
- (ख) “प्रतिनियुक्ति” शीर्ष के अधीन मद (क) की उप मद (ii) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:- “जिनहोने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रु.) या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।”
- (ग) स्तम्भ (4) में कनिष्ठ अनुवादक के पद से संबंधित क्रम संख्या (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् “वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 (35,400 - 1,12,400 रु.)।”

[फा. सं. ए-12018/18/2012-प्रशा. III.ख]

राजपाल सिंह, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. संख्या 975(अ) तारीख 16 दिसम्बर, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2017

G.S.R. 74(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Revenue, Central Board of Excise and Customs, Senior Translator and Junior Translator (Group ‘B’, Non Gazetted, Non Ministerial Posts) Recruitment Rules, 2015, namely:-

1. (1) These rules shall be called the Department of Revenue, Central Board of Excise and Customs, Senior Translator and Junior Translator (Group ‘B’, Non-Gazetted, Non Ministerial Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Department of Revenue, Central Board of Excise and Customs, Senior Translator and Junior Translator (Group ‘B’, Non Gazetted, Non Ministerial Posts) Recruitment Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

“3. Number of posts, classification and level in pay matrix. – The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.”.

3. In the Schedule to the said rules, -

(a) in column (4), for the column heading, the following column heading shall be substituted, namely:- “Level in pay matrix”;

(b) against serial number (1) relating to the post of Senior Translator,-

(i) in column (4), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:- “Level – 7 in the pay matrix (Rs. 44,900 – 1,42,400)”;

(ii) in column (11),-

(A) under the heading “Promotion”, for the portion beginning with “Junior Translator in Pay Band-2” and ending with “National Academy of Customs, Excise and Narcotics”, the following shall be substituted, namely: - “Junior Translators in level – 6 in the pay matrix (Rs. 35,400 – 1,12,400) with five years regular service in the grade and successfully completed the training of two weeks in the National Academy of Customs, Excise and Narcotics.”;

(B) under the heading “Deputation”, in sub-item (ii) of item (A), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:- “with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level – 6 in the pay matrix (Rs. 35,400 – 1,12,400) or equivalent in the parent cadre or Department.”;

(c) against serial number (2) relating to the post of Junior Translator, in column (4), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:- “Level – 6 in the pay matrix (Rs.35,400 – 1,12,400).”.

[F. No. A-12018/18/2012-Ad.III.B]

RAJPAL SINGH, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 975 (E), dated the 16th December, 2015.